

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 26—जून 1, 2018 (ज्येष्ठ 5, 1940)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26—JUNE 1, 2018 (JYAISTHA 5, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)

नई दिल्ली, 14 मई, 2018

सं.डीपी/कार्मिक-1/2018/1750/03/45/2009.—श्री ए. के. चंदा, अपर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, एसटीएफ़ मुम्बई ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 30.04.2018 के अपराह्न से अपर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी.पी. सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)
के.अ.ब्यूरो.(मु.) नई दिल्ली

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मई, 2018

सं. 16/पीबी- I/2018.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री नाहर सिंह (जन्म तिथि 02.04.1958) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 30 अप्रैल 2018 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुनीला कृष्णन
प्रशासनिक अधिकारी (पीबी- I अनुभाग)

सं. 14/पीबी- I/2018.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, सुश्री विमलेश शर्मा (जन्म तिथि 24.04.1958) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 30 अप्रैल 2018 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

सुनीला कृष्णन
प्रशासनिक अधिकारी (पीबी- I अनुभाग)

सं. 17/पीबी-I/2018.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री वेद प्रकाश सक्सेना (जन्म तिथि 24.04.1958) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 30 अप्रैल 2018 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुनीला कृष्णन
प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग)

सं. 15/पीबी-I/2018.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, सुश्री मंजू साहनी (जन्म तिथि 15.04.1958) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 30 अप्रैल 2018 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

सुनीला कृष्णन
प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग)

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

रायपुर, 10 मई, 2018

फा.सं. II (10-A) 01.Vig/L.P./2017/135.—केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में पत्र संख्या II (10-A) 01.Vig/L.P./2017/2725, दिनांक 11.01.2018 के तहत श्री लक्ष्मी प्रसाद, कर सहायक, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर की सेवा दिनांक 16/02/2018 से समाप्त की जाती है।

वी. के. सक्सेना
प्रधान आयुक्त
केन्द्रीय माल एवं सेवाकर तथा
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 11 मई, 2018

सं. ए-19011/4/2018-स्थापना.—राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 27.03.2018 के आदेश सं. टी.-6/2018 के अनुसरण में श्री भूषण कुमार सिन्हा (आईईएस: 1993) को 27 अप्रैल, 2018 के पूर्वाहन से वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

मृत्युजंय सिंह
अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 मई, 2018

सं.ए.-32011/01/2017-प्रशा.॥.—राष्ट्रपति, श्री बी. मोहंती, प्रादेशिक निदेशक (उ.पू.क्षे.) शिलांग को उनके कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से पदोन्नति के परिणाम स्वरूप 09.05.2018 (पूर्वाहन) से भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

रवि वजीरानी
अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(आर्थिक सलाहकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 15 मई, 2018

सं. ए-3801(02)2018-आ.सला.(प्रशा.-I).—अधिवर्षिता का आयु प्राप्त करने पर, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्री के.पी. नागेश्वरन 31 मई, 2018 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति हो जाएंगे।

गोपाल सिंह नेगी
आर्थिक सलाहकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सं. ए-22012/04/2017-प्रशा. I(ए).—राष्ट्रपति विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अनुभाग अधिकारी श्री ए.के. सिन्हा बिश्वास को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2018 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एच.के. भट्ट
अवर सचिव

सं. ए-22012/04/2017-प्रशा. I(ए).—राष्ट्रपति विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अनुभाग अधिकारी श्रीमती सुरेश बाला को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2018 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एच.के. भट्ट
अवर सचिव

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2018

सं. ए-22012/04/2017-प्रशा. I(ए).—राष्ट्रपति विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अनुभाग अधिकारी श्री सतीश कुमार को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरांत दिनांक 30.04.2018 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एच.के. भट्ट
अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीएचएस प्रभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 2018

सं. ए.-12025/84/2016-सीएचएस-III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दीप्ती कपूर को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल चिकित्सा विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के पद पर 20.3.2017 के पूर्वाहन से और आगामी आदेशों तक, परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

डी.डी. महेश्वरी
अवर सचिव

सं. ए.-12025/81/2016-सीएचएस-III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अंकिता गोयल शर्मा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल चिकित्सा विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के पद पर 30.12.2016 के पूर्वाहन से और आगामी आदेशों तक, परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

डी.डी. महेश्वरी
अवर सचिव

सं. ए. 12025/1/2016-सीएचएस-III.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रीती सिंह को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल चिकित्सा विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के पद पर 22.12.2016 के पूर्वाहन से और आगामी आदेशों तक, परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

डी.डी. महेश्वरी
अवर सचिव

(सीएचएस-1 अनुभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 2018

सं.ए.-12025/61/2016-सीएचएस1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. तन्वी को दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० तन्वी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. तन्वी दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेगी।

शीतांशु मोहन राउतराय

अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई, 27 सितम्बर, 2017

सं./भापाबो/भर्ती/R/4(15)/2016/6023.—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्र (तालचर) के डॉ. प्रदीप रूपचंद्र गोडबोले, वैज्ञानिक अधिकारी/डी, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 को वैज्ञानिक अधिकारी/ई के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में दिनांक 1 जुलाई, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी संयंत्र में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

एस. एस. गोंडाने

प्रशासन अधिकारी- III

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(भाषा प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

मिसिल सं. 2-1/2010 प्रशा..—राष्ट्रपति सहर्ष केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि अथवा इस संबंध में अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ सहायक निदेशक (भाषा) के पद पर पे-मैट्रिक के लेवल-10 में नियुक्त करते हैं:-

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. श्री नंद कुमार के. बी. | 11. श्री चरणजीत सिंह |
| 2. श्री अमरजीत सिंह गुलाटी | 12. डॉ किरण झा |
| 3. श्रीमती अंजू सिंह | 13. श्री अशोक कुमार |
| 4. डॉ नूतन पांडेय | 14. डॉ मोहम्मद नसीम |
| 5. डॉ दीपक कुमार पांडेय | 15. श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव |
| 6. श्रीमती बबीता रानी श्रीवास्तव | 16. डॉ जगदीप यादव |
| 7. श्रीमती बिंदु पी. वी. | 17. सुश्री अनिता यादव |
| 8. डॉ शलिनी राजवंशी | 18. श्री रत्नेश कुमार मिश्र |
| 9. डॉ अनुपम माथुर | 19. डॉ प्रतिष्ठा श्रीवास्तव |
| 10. श्रीमती हर्षा मनोहर नाईक | |

संगीता टोप्पो

अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली, 11 मई, 2018

सं. ए-19011/1/2018-स्थापना.—सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14 अप्रैल, 2018 को संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव, श्री नवनीत मिश्रा के निधन को नोट कर लिया गया है।

मनीष राजन
अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
नई दिल्ली, 9 मई, 2018

सं. ई(ओ)III-2018/आरएन/17.—श्री अमित टंडन, भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के अधिकारी (जन्म तिथि: 13/01/1970, डीआईटीएस: 28/04/1997; लिएन: दक्षिण रेलवे) का रेल विकास निगम लिमिटेड (आर.वी.एन.एल) में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 28/02/2018 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

रंजनेश सहाय
सचिव

पोत परिवहन मंत्रालय
नई दिल्ली, 10 मई, 2018

फा.सं. एल एच-32013/4/2017-एस एल.—राष्ट्रपति दिनांक 5 अप्रैल 2018 (पूर्वाहन) से श्री महेश प्रसाद निमारे, सहायक कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स) को वेतन मैट्रिक्स लेवन-11 रु0 67700-208700 (पूर्व संशोधित वेतनमान पी0बी0-3 रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन रु0 6600) के वेतनमान में दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में उप-निदेशक के पद पर पदोन्नत करते हैं।

जयसीलन टी
निदेशक

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(स्थापना-I अनुभाग)
नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018

सं. ए-19011/11/2013-ई.—राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 06.04.2018 के आदेश सं. पी-7/2018 के अनुसरण में सुश्री शिल्पे एम. डेनियल, उप-निदेशक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में प्रोन्नति के परिणाम स्वरूप उन्हें दिनांक 06.04.2018 (अपराहन) से इसी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 पर संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजिन्दर कुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2018

सं. ए-19011/04/2018-ई.—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के का. आ. सं. 1/2/2018-ईओ (एमएम-1) दिनांकित 10.04.2018 के अनुसरण में श्री संकेत एस. भोंडवे, आईएएस (एमपी:2007) को केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत दिनांक 26.04.2018 (पूर्वाहन) से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पे मैट्रिक्स के लेवल-12 (रु. 78800 – रु. 209200) में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश गुप्ता
उप सचिव

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
(DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT)

New Delhi, the 14th May, 2018

No. DP/Pers 1/2018/1750 /3/45/2009.—Shri A.K. Chanda, Additional Superintendent of Police, CBI, Delhi Special Police Establishment, STF, Mumbai has relinquished charge of the post of Additional Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon 30.04.2018 on attaining the age of retirement on superannuation.

D.P. SINGH,
Admn. Officer (Pers.)
CBI HO New Delhi

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 7th May, 2018

No. 16/PB-I/2018.—On attaining the age of superannuation, Sh. Nahar Singh (DOB: 02.04.1958), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), retired from Government service in the afternoon of 30th April, 2018.

SUNILA KRISHNAN
Administrative Officer (PB-I)

No. 14/PB-I/2018.—On attaining the age of superannuation, Ms. Vimlesh Sharma (DOB: 24.04.1958), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), retired from Government service in the afternoon of 30th April, 2018.

SUNILA KRISHNAN
Administrative Officer (PB-I)

No. 17/PB-I/2018.—On attaining the age of superannuation, Sh. Ved Prakash Saxena (DOB: 24.04.1958), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), retired from Government service in the afternoon of 30th April, 2018.

SUNILA KRISHNAN
Administrative Officer (PB-I)

No. 15/PB-I/2018.—On attaining the age of superannuation, Ms. Manju Sahni (DOB: 15.04.1958), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), retired from Government service in the afternoon of 30th April, 2018.

SUNILA KRISHNAN
Administrative Officer (PB-I)

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

(OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER, CENTRAL GST AND CENTRAL EXCISE)

Raipur, the 10th May, 2018

F.No.II(10-A) 01-vig/L.P./2017/135.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, vide letter F.No. II(10-A) 01-vig/L.P./2017/2525 dated 11.01.2018, Shri Lakshmi Prasad, Tax Assistant, CGST, & Central Excise, Raipur has been terminated from service w.e.f. 16/02/2018.

V.K. SAXENA,

Principal Commissioner

CGST & Central Excise, Raipur

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 11th May, 2018

No. A-19011/4/2018-Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs Order No. T-6/2018 dated 27.03.2018, the President is pleased to appoint Shri Bhushan Kumar Sinha, (IES: 1993) as Economic Advisor in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 27th April, 2018.

MRITUNJAY SINGH,

Under Secretary

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 10th May, 2018

No. A-32011/01/2017-Ad.II.—The President is pleased to appoint Shri B. Mohanty, Regional Director (NER), Shillong in Senior Administrative Grade of Indian Corporate Law Service in Level-14 of Pay Matrix on regular basis with effect from 09.05.2018 (F.N.) on his promotion from Junior Administrative Grade.

RAVI VAZIRANI

Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISOR)

New Delhi, the 15th May, 2018

No. A-38012/02/2018-Ec.Ad. (Admn. I).—On attaining the age of superannuation, Shri K.P. Nageswaran, Principal Private Secretary in the Office of the Economic Advisor, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, shall stand retired from the Government service with effect from the afternoon of 31st May, 2018.

GOPAL SINGH NEGI,

Economic Adviser

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi, the 28th March, 2018

No. A-22012/04/2017- Admn. I(A) .—The President is pleased to retire Shri A. K. Sinha Bishwas, Section Officer, in the Department of Science & Technology from Government service on attaining the age of superannuation w.e.f. 31.03.2018 (AN).

H.K. BHATT

Under Secretary

No. A-22012/04/2017- Admn. I(A) .—The President is pleased to retire Smt Suresh Bala, Section Officer, in the Department of Science and Technology from Government service on attaining the age of superannuation w.e.f. 31.03.2018 (AN).

H.K. BHATT

Under Secretary

New Delhi, the 27th April, 2018

No. A-22012/04/2017- Admn. I(A) .—The President is pleased to retire Shri Satish Kumar, Section Officer, in the Department of Science and Technology from Government service on attaining the age of superannuation w.e.f. 30.04.2018 (AN).

H.K. BHATT

Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(CHS DIVISION)

New Delhi, the 15th May, 2018

No.A.12025/84/2016-CHS.III.—The President is pleased to appoint Dr. Dipti Kapoor to the post of Assistant Professor in the specialty of Paediatrics in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 20.3.2017 and until further orders.

D.D.MAHESHWARI

Under Secretary

No.A.12025/81/2016-CHS.III.—The President is pleased to appoint Dr. Ankita Goel Sharma to the post of Assistant Professor in the specialty of Paediatrics in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 30.12.2016 and until further orders.

D.D.MAHESHWARI

Under Secretary

No.A.12025/1/2016-CHS.III.—The President is pleased to appoint Dr. Preeti Singh to the post of Assistant Professor in the specialty of Paediatrics in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 22.12.2016 and until further orders.

D.D.MAHESHWARI
UNDER SECRETARY

(CHS I SECTION)

New Delhi, the 16th May, 2018

No.A.12025/61/2016-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Tanvi to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400](pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 15th December, 2016 until further orders. Dr. Tanvi is posted as Medical Officer under Central Govt. Health Scheme, Delhi. Dr. Tanvi will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROURAY
Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai, the 27th September, 2017

No. HWB/R/4(15)/Vol-VI/2016/ 6023.—The President is pleased to appoint Dr. Pradeep Rupchandra Godbole, Scientific Officer / D, Heavy Water Plant (Talcher) in the Level 11 of Pay Matrix as Scientific Officer / E in the Level 12 of Pay Matrix with effect from the forenoon of July 1st, 2016 until further orders in the same plant in a temporary capacity.

S. S. GONDANE
Administrative Officer –III

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
(LANGUAGE DIVISION)

New Delhi, the 21st May, 2018

F.No.2-1/2010-Admn.—President is pleased to appoint following officers of the Central Hindi Directorate, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, to the post of Assistant Director (Language) on an ad-hoc basis in level 10 of Pay matrix for a period of one year or till further orders whichever is earlier, from the date of assumption of charge of the post by them:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| i) Shri Nand Kumar K.B. | vii) Smt. Bindu P.V. |
| ii) Sh. Amarjeet Singh Gulati | viii) Dr. Shalini Rajvanshi |
| iii) Smt. Anju Singh | ix) Dr. Anupam Mathur |
| iv) Dr. Nutan Pandey | x) Smt. Harsha Mahohar Naik |
| v) Dr. Deepak Kumar Pandey | xi) Sh. Charanjit Singh |
| vi) Smt. Babita Rani Srivastava | xii) Dr. Kiran Jha |

xiii)	Sh. Ashok Kumar	xvii)	Ms. Anita Alagh
xiv)	Dr. Mohammad Nasim	xviii)	Shri Ratnesh Kumar Mishra
xv)	Smt. Archana Srivastava	xix)	Dr. Pratishtha Srivastava
xvi)	Dr. Jagdeep Yadav		

SANGITA TOPPO

Under Secretary

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 11th May, 2018

F.No. A-19011/1/2018-Estt.—The competent authority has taken note of the demise of Shri Navneet Misra, Under Secretary of Central Secretariat Service Cadre of Ministry of Culture, New Delhi, on 14th April, 2018.

MANEESH RAJAN,
Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th May, 2018

No. E (O) III-2018/RN/17.—Consequent upon his permanent absorption in Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) Shri Amit Tandon, an officer of the Indian Railway Service of Engineers (DOB : 13/01/1970, DITS: 28/04/1997, LIEN : SR), has resigned from Railway service with effect from 28/02/2018.

RANJANESH SAHAI
Secretary

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 10th May 2018

F. No. A-32013/4/2017-SL.—The President is pleased to promote Shri Mahesh Prasad Nimare, Assistant Executive Engineer (Electronics) to the post of Deputy Director in the in Level 11 of Revised Pay Matrix Rs. 67700-208700 [Pay Band-3 Rs. 15600-39100 + GP 6600/-(pre-revised)] in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the forenoon of 5th April 2018.

JAYASEELAN T
Director

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(ESTABLISHMENT I SECTION)

New Delhi, the 16th April, 2018

No. A-19011/11/2013-E.I.—Consequent upon her promotion to the Junior Administrative Grade (JAG) of Indian Economic Service (IES) vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. P-7/2018 dated 06.04.2018, the President is pleased to appoint Ms. Shirley M. Daniel, presently working as Deputy Director in the Ministry of Road Transport & Highways as Joint Director at Level 12 of the Pay Matrix, in the same Ministry, with effect from 06.04.2018 (A.N.).

RAJINDER KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 27th April, 2018

No.A-19011/04/2018-E-I.— In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer)'s O.M.No.1/2/2018-EO (MM-I) dated 10.4.2018, the President is pleased to appoint Shri Sanket S. Bhondve, IAS (MP:2007) as Deputy Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) under the central Staffing scheme for a period of four years w.e.f. 26.4.2018 (F.N.) or until further orders, whichever event takes place earlier.

RAJESH GUPTA

Dy. Secretary